

February 11, 2025

To,

The Manager, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051

Symbol: SATIN

The Manager, BSE Limited 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code: 539404

Sub: Submission of copies of Published Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

Dear Sir/Madam,

In continuation to our intimation dated February 10, 2025, we hereby enclose copies of the Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 published on February 11, 2025 in Business Standard (English and Hindi).

This is for your information and record.

Thanking You.

Yours faithfully, For **Satin Creditcare Network Limited**

(Vikas Gupta) Company Secretary & Chief Compliance Officer

Encl: a/a

CORPORATE OFFICE: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase – III, Gurugram,

Haryana - 122016, India

REGISTERED OFFICE: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, New Delhi – 110033, India
 CIN
 : L65991DL1990PLC041796

 Landline No
 : 0124-4715400

 E-Mail ID
 : info@satincreditcare.com

Website

- - : www.satincreditcare.com

COMMERCIAL



Notes:

Place: New Delhi Date: 10 February 2025

The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended 31 December, 2024. Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website www.cantabilinternational.com and also use the following link

NSE- https://www.nseindia.com/get-quotes/equity?symbol=CANTABIL

BSE- https://www.bseindia.com/stock-share-price/cantabil-retail-india-ltd/cantabil/533267/financials-results/

Company Website- http://www.cantabilinternational.com/investor_annual&quarterlyresult.html

- The financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit 2 Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Cantabil Retail India Limited ("the Company") at their respective meetings held on 10 February 2025. The statutory auditors have carried out a limited review of these results
- These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The business activities of the Company predominantly falls within a single primary business segment viz. "Retail", accordingly there are no separate reportable business segments as per Ind AS 108 "Operating Segments".
- The Board of Directors has declared an interim dividend @ Rs 0.50/- per equity share (25%) of face value of Rs. 2/- per share at their meeting held on 10 February 2025.
- The previous period/year numbers have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year presentation. The 8 impact of such reclassification/regrouping is not material to the financials results

For Cantabil Retail India Limited Sd/-(Vijay Bansal) Chairman & Managing Director


DIN 01110877


CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED


Regd. Office: B-16, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035 CIN: L74899DL1989PLC034995, Website: www.cantabilinternational.com Tel: +91-11-41414188, Email: info@cantabilinternational.com

Particula	18	Quarter			
Total Jacomo from occurat		December 31, 2024	Quarter ended December 31, 2023	Nine Months ended Decembe 31, 2024	
Total Jacomo from accord		Unaudited	Unaudited	Unaudite	d Audited
Total Income from operat	ons	68,758.86	59,628.13	1,97,940.4	9 2,24,052.78
Net Profit / (Loss) for the p Exceptional and/or Extrac		1,494.94	15,118.09	21,753.9	0 58,288.79
Net Profit / (Loss) for the (after Exceptional and/or items ^e)	Incontraction was a set of the se	1,494.94	15,118.09	21,753.9	0 58,288.79
		1,425.94	11,306.90	16,423.2	43,593.80
period (Comprising Profit	/ (Loss) for the	1,301.13	12.236.05	15,307.7	5 44,200.83
Paid up Equity Share Cap	pital	11,004.32	11,004.32	11,004;3	11,004.32
as shown in the Audited E					2,29,080.51
	unt	1,47,213.33	1,47,219,49	1,47,213.3	3 1.47.213.33
Net Worth	24.13	2,51,814.04	2.27,196.78	2,51,814.0	4 2.40,000.06
	Preference	Nil	Nil		iii Ni
Debt Equity Ratio		3.38	3.56	3.3	8 3.33
	tstanding Debt	8.62.652.86	7.99.801.04	8.62.652.8	6 7.90.963.62
Earnings Per Share (₹10/ continuing and discontinu 1. Basic:	each) (for	1.30	11.23		(3) (3) (3) (3) (3)
at a canada	invo			+	
			a new party in the last of		
and the second second second second second second			and the second		
eptional and/or Extraordinar	y items adjusted in	1			
f of Unaudited Standalone F	Inancial Results for	r the Quarter ar	nd Nine Month	s ended Dec	ember 31, 2024
Particulars	Quarter ended December 31, 2024		ended [Decem- M	Year ended arch 31, 2024
	Unaudited	Unaudited	Unau	dited	Audited
Total Income	63,207.38	54,760	.62 1,81	,509.68	2,05,064.82
Profit / (Loss) Before Tax	1,701.49	14,526	.69 21	197.93	56,584.95
Profit / (Loss) After Tax	3,134.70	10.838	36 17	551.73	42,284.41
85:					
The above results have been of Satin Creditcare Network The above is an extract of Regulations 33, 52 & 63 2015 ('the Listing Regula available on the website of Stock Exchange(s) (i.e. NS For the other line items re	Limited ('the Com of the detailed form of SEBI (Listing O titions'), as amende f the Company (i.e E at www.nseindia. ferred in Regulation	pany') at their nat of Results bigations and ad from time to www.satincre com and BSE a n 52(4) of the I	meetings held filed with the Disclosure R time. The ful ditcare.com) (at www.bseind Listing Regula	on Februar Stock Excl tequirement I format of t and on the ia.com). tions, pertin	y 10, 2025. hange(s) under s) Regulations, he Results are websites of the ent disclosures
	Net Profit / (Loss) for the (after Exceptional and/or items") Total Comprehensive Inco period [Comprising Profit period (after tax) and Othe Income (after tax)] Paid up Equity Share Cay Reserves (excluding Rev as shown in the Audited E the previous year Securities Premium Acco Net Worth Outstanding Redeemable Shares Debt Equity Ratio Paid up Debt Capital / Ou Earnings Per Share (₹10/ continuing and discontinue 1. Basic: 2. Diluted: Capital Redemption Rese Debenture Redemption R Debt Service Coverage Interest Service Coverage eptional and/or Extraordinar s/AS Rules, whichever is ap fof Unaudited Standalone F Profit / (Loss) Before Tax Profit / (Loss) After Tax as: The above results have beer of Satin Creditcare Network The above is an extract of Regulations 33, 52 & 63 2016 (bte Listing Regula available on the website o Stock Exchange(s) (i.e. NS For the other line items re have been made to the Sto no. 2 above. These Consolidated Result	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items") Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)] Paid up Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Securities Premium Account Net Worth Outstanding Redeemable Preference Shares Debt Equity Ratio Paid up Debt Capital / Outstanding Debt Earnings Per Share (₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted: Capital Redemption Reserve Debt Service Coverage Ratio Interest Service Coverage Ratio Interest Service Coverage Ratio eptional and/or Extraordinary items adjusted in s/AS Rules, whichever is applicable. f of Unaudited Standalone Financial Results for December 31, 2024 Unaudited Total Income 63,207.38 Profit / (Loss) After Tax 3,134.70 set The above results have been reviewed by the / of Satin Creditcare Network Limited ('the Com The above is an extract of the detailed form Regulations 33, 52 & 63 of SEBI (Listing O 2016 (Athe Linking Regulations'), as amendia available on the website of the Company (i.e. Stock Exchange(s) (i.e. NSE at www.nseindia. For the other line items referred in Regulation have been made to the Stock	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items") 1.425.94 Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) 1.301.13 Paid up Equity Share Capital 11.004.32 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 1.47.213.33 Net Worth 2.51.814.04 Outstanding Redeemable Preference Shares Nil Debt Equity Ratio 3.38 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 8.62.652.86 Earnings Per Share (₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 1.30 2. Diluted: 1.30 2. Diluted: 1.30 Capital Redemption Reserve Not Applicable Interest Service Coverage Ratio Not Applicable Debt Service Coverage Ratio Not Applicable 31, 2024 31, 2023 Interest Service Coverage Ratio Not Applicable 31, 2023 31, 2023 Interest Service Coverage Ratio Not Applicable 31, 2023 31, 2023 Interest Service Coverage Ratio Not Applicable 31, 2023 31, 2023 Interest Service Coverage Ratio Not Applicable 31, 2023 31, 2023	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items") 1,425.94 11.306.90 Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 12.236.05 Paid up Equity Share Capital 11,004.32 11.004.32 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 11.47,213.33 1.47,219.49 Net Worth 2,51,814.04 2,27,196.78 Outstanding Redeemable Preference Shares Nil Nil Debt Equity Ratio 3.38 3.56 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 8,62,652.86 7,99,801.04 Earnings Per Share (₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 1.30 11.23 2. Diluted: 1.30 11.23 11.47,210.20 2. Diluted: 1.30 11.23 11.23 2. Opticable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Patrize Coverage Ratio Not Applicable Not Applica	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary) items") 1,425.94 11,306.90 16,423.2 Total Comprehensive Income for the pariod (Comprehensive Income for the pariod (Comprehensive Income for the pariod (Comprehensive Income for the pariod (State Tax)) 1,301.13 12,236.05 15,307.7 Paid up Equity Share Capital 11,004.32 11,004.32 11,004.32 11,004.32 Paid up Equity Share Capital 11,004.32 11,004.32 11,004.32 11,004.32 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 1,47,213.33 1,47,219.49 1,47,213.33 Net Worth 2,51,814.04 2,27,196.78 2,51,814.0 Outstanding Redeemable Preference Shares Nil Nil N Debt Equity Ratio 3.38 3.56 3.3 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 8,62,652.86 7,99,801.04 8,62,652.86 Continuing and discontinued operations) - 1. 1.30 11.23 14.93 Capital Redemption Reserve Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable </td

Place: Gurugram Date: 10.02.2025







.

Delivering Excellence through People



Website: www.engineersindia.com I CiN: L74899DL196560I004352

8 - 6 0



/company/engineers-india-limited

- -

Place: Hyderabad

DIN: 00212270

Sd/

(Harvinder Pal Singh)

DIN: 00333754

Chairman cum Managing Director

181 UBILANT BIOSYS

जुबिलैंट बायोसिस लिमिटेड (सीआईएन: U24110UP1998PLC029591) पंजीकृत कार्यलियः प्लॉट १ए, सेक्टर १६ए नोएडा - 201301, उत्तर प्रदेश, भारत दूरभाष: +91 120 4361000 बेबसाइट www.jubilantbiosys.com

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 201 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह कम्पनी अनुसूची V के साथ पठित अधिनियम की घारा 196, 197, 203 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों, यदि हो, तथा इसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत, कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा बुधवार, 23 अक्टूबर, 2024 को आयोजित बैठक में एवं शेयरधारकों द्वारा सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024 को आयोजित उनकी असाधारण आम बैठक में प्रदान किए गए अनमीदन के संदर्भ में, श्री जिउलिआनों पर्फेंटी (डीआईएन: 09357368) (अनिवासी) को, 27 जनवरी, 2025 के प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि हेत कम्पनी के मरुप कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियक्ति की स्वीकृति हेत् केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है।

	कृते जुबिलैंट बायोसिस लिमिटेड
	हस्ताक्षर/
	इरफान अली
दिनांक: 10 फरवरी 2025	कम्पनी सचिव
स्थानः नोएढा	सदस्यता संख्याः A20129

HDFC BANK	एचडीएफसी बेंक लि शाजेन्द्र व्येस प्लॉट नं. б. रोक्टर-16वी.
We understand your world	आवास विकास, सिकंदरा बोजना, आगरा 282007
परिशिष्ट	-IV-ए (नियम 8/6) के प्रातधान देखें]

अचल सम्पत्तियों की विक्री के लिए विक्री सूचना

अतिमुचिकरण एवं निलीम संपत्तिमां के पुनगेंदन तथा प्रतिमुचि दित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साम पतिव प्रतिमुचि हिल (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 (ह) के प्रवयानों के आर्थात अपल सम्पतिकों की वेकी के लिए ई-मीम्समी विक्वी संचयना

प्रकार का तथा अन्यात्मना सका शुर्वना एतवड्डारा आम तीए पर जनसावरण तथा विशेष रूप से वार्जवारों तथा मार्ग्टीवलाओं को सुधना दी वाती है कि मीचे कलेतिका जवल सम्मति प्रत्याभुत ऋण्याता के पांच दिश्वी रखी मई,जमारित की गई की, एतकीएकसी बैंक लिमिटेड, प्रत्यामून अन्यताश के अधिकृत अधिकारी द्वारा तस पर मीतिक कल्जा कर जिन्दा गया है, जिले 1, मेरार्च साईटिको इंडिया अपने स्वत्यायिकारी की भनीष त्वान (कर्जवार), 2. की बनीब त्याल पुत्र की सुरेश बंद त्याल (सह कर्जवाल एवं पाउंटीहाला). 3. सीमती पुण्या त्यात पत्नी की सुरेश बंद त्याल (पारंटीवाला एवं गिरवीवाला) से एवडीएकसी बैंक लि अत्याभूत क्षणदाल वे जीते **दिनाक 21,04 2022 को रु. 1,11,60,903/-** के साथ जाने के व्याप्त तथा सानू शुल्कों की यसूती के लिए **"जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" लम्पा "वहां जो कुछ है" के आधार घर 28 मार्च 2025** को विकी की जाएमी। आरक्षित मुख्य प्रायंक सम्पत्ति के लिए रु. 92,70,000/- डोना तथा बवाना राजि जम्म स्योक सम्पर्शन के लिए क. 9,27,000/- होगा।

अयोक समवत के लिए **8.3.27,000**, हागा। मोहल्सा मागू बांक, अदसन गली-कुया राम सरण दास, नगर अलीगक, जिला जलीगढ़ में एक दिहायसी सम्पति स. 13/162 (पुरानी सं. 13/149), क्षेत्रफल 96.44 वर्ग मोटर। क्षिकी के दिस्तृत नियम पर्व पाली के लिए कृपया एअटीएफनी बेंक लिनिटेड, प्रत्याभूत जुलपाल

की वेबसाइट https://www.hdtobank.com/personal/resources/important-notices में प्रदत्त first mill अधिकृत अधिकारी,

एचडीएफसी बेंक लिमिटेड सारीखः- 11.02.2025, स्थानः आगरा

> प्रकृत सं. 14 [चिनियम-33(2) देखें] नसूली अभिकारी का कार्यालय - UE

प्रतिबंधित हैं।

स्यान : गाण्डियाबाद

रथान : नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली/गुडगाँव

डण बसूती न्यायाधेकरण दिल्ती (टीआरटी 2) पहली मजिल, एससीओ 33-34-35, सेम्टर 17-ए, बंदीयद (जीसरी एवं गाँधी मॉनल पर थी अतिरिक ज्यह आमंटित की गई है)

मांग सुचना नकामा ज्वनों की वसूती उमा दिवलिया अभिनियम, 1963 की पाराएं 25 से 28 तथा आगकर अभिनियम 1961 की दितीय अनुसूधी के नियम 2 के अभीन सुचना

सरसर 101072023 एवळीएफसी बैंक बनाम भी लेख सम मादव पुत्र प्रवेते, (सीडी 1) भी लेख सम मादव पुत्र हनुमान प्रसाद खदव पीपीओ वन्त्रीरावाद, माता चीक के निकट, बुढ़गेरा, हरिवाणा। (सीडी 2) मही दूर एमड ट्रेकेस आगे स्कवाधिकरों भी लेख राज यादव, प्लीट से. 20, दूसरी मॉफल, शॉव से. 202, प्राम कन्वेराबद, युद्ध लंक सोसाइटी के निवट, सेक्टर-52, युढ़गोंव, हरियाण-0 के प्लेश्

पर अभिवृषित जिन्या जाता है कि ओए/1149/2022 में पीतासीन अधिकारी, जाण नसूती नवयाधिकरण पंठीपठ (टीआरटी 2) द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के तत्या जारी वसूती प्रमाणपत के अनुसार क. 229/779.32 (क्षणे बाईस लाख सन्तानवे इनार सात सी जनासी एवं पैसे बतीस पाल) के साथ दिनाज 19/03/2022 से वसुली तक सालाना 8 प्रतिष्ठत साम्बरण व्याज की दर से वादकातीन एवं धविष्य के व्याज की रकम तथा लागत के रूप में क. 25005 (रुपये प्रव्यीस ट्रन्जर बांव मात्र) आपके खिलाफ (संयुक्त तथ पुषक रूप में/समूर्ण) सीमित) वकाया तो चुकी है।


मेंद) बतलया हो चुकी है। अध्यक्षे एतन्द्रारा इस सुचना की अधि की तारीख से 15 दिनी के अंदर ऊपर उल्लेखित स्वरूप बुक्दा करने का निर्देश दिया जतता है, अन्यवा देवते एवं विद्वीप संस्थानों की वतराया अपने की जसूती अधिनियम, 1983 दाया उसके अधीन बनाए एन नियमों के अनुसार उसकी वसूत्वी की जाएगी। आधयको एतन्द्रारा सुनुवाई की अगली जरीख को अध्या जससे पारने अपनी वग्लीतीयों के विवरण इत्यानामा

सरा चोषेत करने का आदेश दिया जाता है। 1. आपको एतन्द्रारा आगे की कार्यच्या के लिए दिनाक 10/03/2025 को सुबार 10.30 सजे अधोरस्ताशनी के साल उपलिस्त होने का आदेश दिया जाता है। (क) प्रमुपणप्रद्रनिष्णादन कार्वच्या की दृश् सुपना के पुरंत बाद की शुरू होने वाली अर्वांधे के लिए पुग्रोय

तेजे ज्याज ।

एक माल। (स) इस सुचना राज्य यास्टों राषा अन्य प्रक्रियाओं राषा बनवया रकन की वसुजी के लिए की गई अन्य सभी कार्यदारी की सेवा के संबंध में सभी लागती, शुल्मों राषा किए गए प्याय की स्वन्म। से इस्ताबर एवं इस न्यायप्रियनगर की मुरार हारा दिनाकः 16/11/2024 को जारी।

वसूली अधिकारी जन्म वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)



अमु. क्र.	कर्जदाता (ओ) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यॉ) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क. HLAPNO800254617 1. आरथंश इंजारदृक्वर प्राइवेट लिमिटेड (कर्णदार) 2. अनिल चौहान (सह-कर्जदार) 3. बबीता (सह-कर्जदार) 4. अखिकेश चौहान (सह-कर्जदार)	आवासीय डुप्लेवस अपार्टमेंट नंबर 19, जिसका सुपर एरिया 3325 वर्ग फीट, ऑर कवर्ड एरिया 2885 वर्ग फीट है, पहली मंजिल पर, जिसमें बालकनी टेरेस ऑर ममटी एरिया शामिल है, पुप हावसिंग प्लॉट गंबर 07 में स्थित है, टावनशिय जिसे 'क्रोसिंग रिपब्लिक' के नाम से जाना जाता है, डूवाइेड्रम में, गाजियाबाद - 200111, जलर प्रदेश।	11.02.2017	रु. 23,53,887.87/- (रापए तेईस लाख तिरेपन हजार आठ बी सतामी और सतासी पेसे मात्र) 10.12.2024 के अनुसार

आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विभिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है ।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार बुक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापवंडो के भीतर निष्णावनेतर परिसंपतियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है । परिणामस्वसप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंलर्गत सुचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युवत को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एलदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान- करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के विन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकावा देवताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी उपपर के स्तंभ बी में उलितखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन के दिलांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए वए सभी खावों, लावतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकावा देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' सरफेली अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिझी, पड़े के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सरक्षित संपत्तिचों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रन के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व विस्तित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से

> कृते एसेंट विकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल-सीपीएस-IV-ट्रस्ट के ट्रस्टी)

प्राधिकृत अधिकारी

37, #.	कर्जदाता (ऑ) का नाम (ए)	गिरवी संपति(यॉ) का विवरण (थी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (स.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HLLALAJ00378231 1. पूरन चंद शर्मा उर्फ पी नी शर्मा 2. अनीता शर्मा 3. राकेश शर्मा	नीचे दी गई धूमि के सभी धाय और खंड, साथ में समस्त संरचना, भवन, फर्नीचर, फिक्सधर, किटिंग्स, जो उस पर लगी हैं और/वा निर्मित हैं/निर्मित की जानी हैं, और संपत्ति बेअरिंग प्लॉट मंबर 12 के बंधककटा(ओं) के सभी वर्तमान और भविष्य के टाइटल, हित और अधिकार, जिसका क्षेत्रफल 400 कों गज है, ब्लॉक नंबर एफ-3 में, गली नंबर 3, ववनमेंट सर्वेट्स सी.एब.बी.एब. सिमिटेड के लेआउट प्लान में, बसंत विहार, नई दिल्ली -110057।	03.01.2025	रू. 1,90,12,040.89/- (सपए एक करोड़ नब्बे लाख बारह हजार चालीस और नवासी पैस मात्र) 23.01.2025 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वितीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ क्री में विनिर्दिष्ट धनशांत वकाया बनी हुई है ।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पूनर्भुगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपतियों (स्तांभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है । परिजामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अग्निनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

उपयुंक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती हैं कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ ही में बिनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दावित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी वई संपत्ति को अधिप्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझीते द्वारा शुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सुधना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्ष्योई क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतीं और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देव शांति अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपनोक्त विधिक रूप से निर्धापित समयावधि के अंदर सरक्षित आस्ति का मोधन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोधन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता सरपेसी अधिनियमन की बारा 13 की जप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यधा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपतियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित जरने से प्रतिबंधित हैं। कृते सम्मान फिनसर्व लिमिटे:

(पहले इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

प्राधिकत अधिकारी

-		(अधिनियम) की घारा 13(2) के अंतर्मत सू	1010	
अनु. क्र.	कर्जदाता (ऑ) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यॉ) का विवरण (थी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया शशि (स.) (डी)
3.	कर्ज खाता ज्ञ. HHLGRG00457799 1. जीति शर्मा 2. सुनील शर्मा	फलेट नंबर 206, तीसरी मंजिल, डीडीए एलआईजी फलेट, ग्रुप - I, रोज अपार्टमेंट, रोक्टर-16-बी, द्वारका, नई दिल्ली - 110075।	03.01.2025	रु. 24,67,327.20/- (रुपए चौबीस लाख सडसव हजार तीन सी सलाईस और बीस पैसे मात्र) 20.01.2025 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क. HHLLAJ00333484 1. अजय जयसवाल उर्फ अजय कुमार जयसवाल 2. बेता चौधनी उर्फ बेता जयसवाल	फलेट नंबर-303, दूसरी मंजिल, पीछे की लरफ, खेम चंद श्ट्रीट, प्लॉट नंबर 245/2 प्रेम नगर गुडगॉव आर. के. टाबर, दिल्ली रोड, गुडगॉव - 122001, हरियाणा।	03.01.2025	रू. 33,30,771.77/- (रूपए तेंतीस लाख तीस हजार सात सौ इकहरा और सतहतर पैसे मात्र) 20.01.2025 के अनुसार

बिजनेस चर्या में रखे जाने बाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है । उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार बुक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (रतंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है । परिणामरवरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गल सूचनाएं भी जारी की गई है ।

उपर्युक्त को दुष्टिगत रखते हुए कंपनी एतरद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लॉ) का आहवान- करती है कि, वे इस सुचना के प्रकाशित होने के

OMAXE Turning dreams into reality

Omaxe Limited

Regd. Office: 19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon-122 001, (Haryana) Corp. Office: 7, LSC, Kalkaji, New Delhi-110019 CIN: L74899HR1989PLC051918, Website: www.omaxe.com, Email: secretarial_1@omaxe.com

Tel: 91-11-41893100

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended December 31, 2024

			Quarter end	led	Nine Mor	th Ended	Year ended
S.No.	Particulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1,	Total Income from Operations	300.39	398.32	601.90	1.083.94	1,092.56	1,634.88
2.	Net Profit/Juss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	(182.68)	(286.90)	(81.71)	(606.77)	(315.84)	(507.07)
3.	Net Profit/licss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	(182.68)	(296.90)	(81,71)	(606.77)	(315.84)	(507.07)
4	Net profit()oss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	(150.28)	(239,48)	(71,77)	(536.73)	(262.32)	(405:95)
5	Total Comprehensive Income/(loss) for the period (Comprising Profit/loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(149.75)	(239.05)	(71.72)	(537.04)	(262.96)	(406.31)
ô,	Part up Equity Share Capital (Face value Rs. 10 each)	182.90	182.90	182.90	182.90	182.90	182.90
1.	Other Equity						297.51
8.	Earnings per share (face value of Rs. 10/- per share) (in tupees) (not annualised for quarter)			L			
	Basic samings per sham	(8.23)	(13,10)	(3,86)	(29.40)	(14.08)	(22.01
	Difuted earnings per share	(8.23)	(13.10)	(3,86)	(29.40)	(\$4.08)	(22.01)

Notes:

Place: New Delhi

Date: 10th February, 2025

The above results were reviewed, recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th February, 2025. The limited review on the financial results for the quarter and nine. months period ended December 31, 2024, as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, have been carried out by the Statutory Auditors of the Company and they have issued an unmodified report on the aforesaid results.

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Financial Results of Omaxe Limited for the quarter and nine months period ended December 31, 2024 are available on the Company's Website at https://www.omaxe.com/investor/financial-results and on the Website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). The full details can also be accessed by scanning the QR Code provided below.

The Key Standalone Financial Information is given below:

	l	Quarter end	ed	Nine Mon	Nine Month Ended	
Particulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	2.2024 31.12.2023	31.03.2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	78.06	102.99	223.05	299.50	544.07	718.00
Profit/(joss) before tax	(51.57)	(77.38)	(46.50)	(185.43)	(110.15)	(183.21)
Net profit/(loss) after tax	(40.30)	(91.07)	(36.45)	(196.27)	(87.56)	(140.32)
Other Comprehensive Incurne/(loss) (net of tax expenses)	0.26	0.45	(0.04)	0.36	(0.69)	(0.63)
Total Comprehensive Income/(loss) for the period	(40.04)	(91.38)	(36.49)	(195.91)	(88.24)	(140.95)

For and on behalf of Board of Directors For Omaxe Limited Sd/-Vinit Goyal Wholetime Director

DIN: 03575020

(Rupees in Crore)

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED CATIN CIN:L65991DL1990PLC041796

Regd. Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033 Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-III, Gurugram, Haryana-122016, India Phone: 0124-4715400, Website: www.satincreditcare.com, E-mail: secretarial@satincreditcare.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the

Quarter and Nine Months ended December 31, 2024

	1		Quarter	0	arter	Nine		Year ended
S. No.	Particular	5	ended December 31, 2024	en Dece	ded amber 2023	Monti ende Decem 31, 20	ns d ber	March 31, 2024
_			Unaudited	Una	udited	Unaudi	ted	Audited
1	Total Income from operation	ons	68,758.86	59	628.13	1,97,94	0.49	2,24,052.78
2	Net Profit / (Loss) for the p Exceptional and/or Extraor		1,494.94	15	,118.09	21,75	3.90	58,288.79
3	Net Profit / (Loss) for the p (after Exceptional and/or t items")		1,494.94	15	,118.09	21,75	3.90	58,288.79
4	Net Profit / (Loss) for the p (after Exceptional and/or f items*)		1,425.94	11	,306.90	16,42	3.26	43,593.80
5	Total Comprehensive Inco period [Comprising Profit period (after tax) and Othe Income (after tax)]	(Loss) for the	1,301.13	12	236.05	15,30	7.75	44,200.83
6	Paid up Equity Share Cap	ital	11,004.32	11	004.32	11,00	4.32	11,004.32
7	Reserves (excluding Reva as shown in the Audited B the previous year							2,29,080.5
8	Securities Premium Accou	int	1,47,213.33	1,47	219.49	1,47,21	3.33	1,47,213.33
9	Net Worth	0000	2,51,814.04	2,27	196.78	2,51,81	4.04	2.40.000.00
10	Outstanding Redeemable Shares	Preference	Nil		Nil		Nil	Ni
11	Debt Equity Ratio		3,38		3.56		3.38	3.33
12	Paid up Debt Capital / Out	tstanding Debt	8,62,652.86	7,99	801.04	8,62,65	2.86	7,90,963.62
13	Earnings Per Share (₹10/- continuing and discontinue 1. Basic: 2. Diluted:		1.30 1.30		11.23 11.23		4.93 4.93	44.34 43.21
14	Capital Redemption Rese	rve	2,777.00	2	777.00	2,77	7.00	2,777.00
15	Debenture Redemption R	eserve	Not Applicable	Not Ap	plicable	Not Apple	cable	Not Applicabl
16	Debt Service Coverage R	atio	Not Applicable	Not Ap	plicable	Not Appli	cable	Not Applicabl
17	Interest Service Coverage	Ratio	Not Applicable	Not Ap	plicable	Not Apple	cable	Not Applicable
	ceptional and/or Extraordinary es/AS Rules, whichever is app		the Statement	of Prof	it & Los	s in accor	dano	e with Ind-AS (* in Lakhs
Brie	ef of Unaudited Standalone Fl	inancial Results for	r the Quarter an	nd Nine	e Month	s ended [)ecen	nber 31, 2024
S. No	Particulars	Quarter ended December 31, 2024	December 31, 2023	r e	ber 31	Decem- , 2024	Mar	ear ended ch 31, 2024
2.17		Unaudited	Unaudited	1	Unau	dited		Audited
1	Total Income	63,207.38	54,760	.62	1,81	,509.68	_	2,05,064.82
2	Profit / (Loss) Before Tax	1,701.49	14,526	.69	21	,197.93		56,584.95
_	Profit / (Loss) After Tax	3,134.70		.36			-	

(CIN: U85110DL2002PLC114787) के विषय में, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी—193, मोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स, साकेत, दिल्ली—110017, भारत में स्थित है आवेतः

एतदहारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी इसको प्रव्लिक कम्पनी से प्राइवेट तम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में 15,01,2025 को आयोजित **असाधारण सामान्य बैठक** में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन डेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की पारा 14 के साथ पठित उपरोक्त नियमों के अधीन एक आयेदन केन्द्र सरकार के समझ प्रस्तुत करने की इच्छक है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / कम्पनी की हेसियत से प्रमावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निर्देशक (बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, शीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003) को इस सूचना के प्रकाशन के बीबह दिन के भीतर सुपूर्व कर सकता है अधवा करवा सकता है अधवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आदेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पते पर स्थित पंजीकत कार्यालय भेजी जानी धाहिए :

कृते एवं हिते आवेदन सुधा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंरोज लिमिटेड इंग्रेसा. तिथि : 10.02.2024 उगेश बन्द सक्सेना रथान : नई दिल्ली Sterms DIN-01101372 षंजीकृत कत्र्यांतय :- सी-193, मोरफ व्यू अपार्टमेंट्स, साकंत, दिश्ली--110017

यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

une a sur mu an alla can alte sit ment sufferen efter as femb-s कारपोरेट कार्यलग तीतरा तत, प्लट नं. बी-१६३, सातम सिटी (, पुरूडाम, इरियाण-१२३६० acuserre.conacar, हील info@euroasiaexportsltd.com, भीम में. 0134-4577733 -----31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए

विवरण	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाड़ी	३३ सितंबर, ३६३म को सम्प्रन्त जिमकी	३१ दिसंबर, ३६७४ को सम्प्रच विषक्षी
	(adamitika)	(edaretika)	(abarelika)
प्रवालनों से कुल आय (शुद्ध)	344.81	7.44	9.32
कर और विशिष्ट गर्दो से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम	28.47	1.46	0.71
कर पूर्व जवयि के लिए शुद्ध लाम	28.47	1.46	0.71
कर परचात जनवि के लिए शुद्ध लाग	21.07	1.08	0.53
अवधि के लिए कुल समग्र आप	21.07	1.08	0.53
इकिन्दी शेयर पूजी	156.88	155.88	155.88
कर्जन प्रति खेवर बेसिक डायल्यूटेड	1.34 1.34	0.07	0.03
नौट : कपर सेवी (सूचीबद तौर त्रन्य प्रकटन आवश्य स्टॉक एक्सपेंज में पेश किए गये तिमाडी वित्तीय परिणानों का पूर्ण कप स्टॉक एक्सपेंज की देवसा www.euroasiaexportsltd.com पर उपलम	परिणामी के विस्तृत रूप व इट www.bscindia.com	ल सार है। वि	माही विल्तीय

	यूपो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए
दिनांका १०.०२.२०२५ रूपान : नई दिल्ली	हतत./- इतत./- रावेष्ठ कुम्बर सिंघल मुकुद् मुरारी प्रबंध निदेषक निदेषक डीआईएन: 06505138 डीआईएन: 08606277

दिन से 60 दिन के भीतर अग्रतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में बिनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देवताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उलिलखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान यें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जवार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित ल्पते हुए, खावंजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आश्तियों की बिकी के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योई क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपगेक्त विधिक रूप से नियांसित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोधन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोधन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' ारफेसी अधिनियमन की बारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पड़े के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व तिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित है।

कते सम्मान कैपिटल लिमिटेउ

(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फावनान्स लिमिटेंड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी

भौलिक कब्जा सूचना

िICICI Home Finance शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टीवर्स, बांदा-गुली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(ईस्ट), मुंबई-40005 1 कॉपरिट कार्यालय - आईसीआईसीआई एषएफसी टॉवर, अंघेरी कुला रोड, जे.बी. नगर, अंघेरी (ई), मुंबई --400 059 हाखा कार्यालय : भूतल, बी 1/4, वम्प्युभिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 तबकि

अभोहस्ताक्षरी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, विशीय परिसंपविधों के प्रतिमूलिकरण एवं युनर्मिर्माज और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिधम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के सहपठित घारा 13(12) के तहत वत शतिओं का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को मांग जारी कर, उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लेखित गशि चराजने के लिए सहा गया।

र्वूकि उँघारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए सामान्य रूप से उघारकर्ता और जनता को सुचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने उक्त भैथिनियम की धारा 13(4) के तहल उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक केवता ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम तौर पर जनता को एतद द्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति से लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

. हवास्वर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्यामृत परिसंपत्ति की छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

要求	ज्यारवल्ती/ सहउधारवली का नाम/ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/कब्जे की दिनांक	भांग सूचना में वित्रांक/ मांग सूचना में राशि (२०)	शाखा का नाम
1	बंदू कुमार सोनी (उधारकर्ता), बबीता देवी (सह–उधारकर्ता) LHDWJ00001474199	तीसरा तल संग छत/छत अधिकार, संपति सं. 31 पर निर्मित, मापक क्षेत्र 83.1/2 वर्ग गज (साईड 15'x 50'), खसरा सं. 804 में सं. स्थित ग्राम नवादा कॉलोनीओम विहार फेज-1 से ज्ञात, अब ऑम विठार फेज 1ए से ज्ञात, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, संग मुत्तल में एक बार पार्किंग अधिकार, संग साझा रास्ता और मूतल से अगरी तल तक सीडिया, (संयम ऋण खात सं. LHDW.00001474199), सीमांकन: उत्तर: आन्य संपत्ति, दोणा : सडक, मूर्व: प्रजॉट सं. 30, पश्चिम : प्रजॉट सं.31-ए का भाग/ कब्जे की दिनांक:06 फरवरी, 2025	46. 16,20,623.78/-	वेस्ट दिल्ली - जनक पुरी– बी
2	बंदू कुमार सोनी (उधारकर्ता), बबीता देवी (सह-उधारकर्ता) LHDWJ00001475407	तीसरा तल संग छत/छत अधिकार, संपत्ति सं. 31 पर निर्मित, मापक क्षेत्र 83.1/2 वर्ग गज (साईड 15'x 50'), खसरा सं. 804 में सं. स्थित ग्राम नवादा कॉलोनीओम विखर फैज–1 से झात, अब ओम विद्यार फैख 1ए से झात, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059, संग भूतल में एक कार पाकिंग अधिकार, संग साझा रास्ता और भूतल से ऊपरी तल तक सीढ़ियां (संदर्भ ऋण खाता सं .LHDW.00001475407), सीमांकन- उत्तर: अन्य संपत्ति, दणिण : सड़क, पूर्व : स्वॉट स. 30, पश्चिम : प्लॉट स. 31–ए का माग/ कब्बे की दिनांक :06 करवरी, 2025	₩. 60,490.06/-	येस्ट दिल्ली – जनवा पुरी– बी
3.	बंदू कुमार सोनी (उद्यारकली), बरीता देवी (तड—उचारकली) LHDWJ00001475406	तीसरा तल संग छत/छत अधिकार, संपत्ति सं. 31 पर निर्मित, मापक क्षेत्र 83.1/2 वर्ग गज (साईड 15'X 50'), खसरा सं. 804 में से, स्थित ग्राम नवावा कॉलोनीओम विहार फैज–1 से झात, अब ओम विहार फैज 1ए से झात, उत्तम नगर, नई डिल्ली–110059, संग मुतल में एक कार पार्किंग अधिकार, संग साझा सरता और मूलल से जन्मरी तल तक सीढ़िया. (संवर्भ अधिकार, संग साझा सरता और मूलल से जन्मरी तल तक सीढ़िया. (संवर्भ अधिकार, संग साझा सरता और मूलल से जन्मरी तल तक सीढ़िया. (संवर्भ अधिकार, यं राजीद सं. 30, पश्चिम : प्लॉट सं.31–ए का भाग/ कब्जे की दिनांक-06 करवरी, 2025	4,81,374.14/~	वेस्ट दिल्ली - जनक पुरी- मी

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Satin Creditcare Network Limited ('the Company') at their meetings held on February 10, 2025.

The above is an extract of the detailed format of Results filed with the Stock Exchange(s) under 2 Regulations 33, 52 & 63 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 ('the Listing Regulations'), as amended from time to time. The full format of the Results are available on the website of the Company (i.e. www.satincreditcare.com) and on the websites of the Stock Exchange(s) (i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com).

- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures 3 have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed through the website link given in point no. 2 above.
- These Consolidated Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.



Place: Gurugram

Date: 10.02.2025

For Satin Creditcare Network Limited (Harvinder Pal Singh) **Chairman cum Managing Directo** DIN: 00333754